



## SAMTA FELLOWSHIP 2022

---

दिनांक: 31.12.2021

प्रति,

राजेश रंजन, तशनीम फ़ातिमा, भावना, कुंदन कुमार, प्रिया जैन

जोधपुर, राजस्थान

महोदय/महोदया

समता फ़ेलोशिप कार्यक्रम के तहत, साल 2022 की फ़ेलोशिप चयन प्रक्रिया में सहभागी होने का आपका आभार व अभिनन्दन !

संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने और उन्हें मजबूत बनाने की दृष्टि से इस फ़ेलोशिप का प्रयोजन किया गया है ! लोगों के जीवन में संवैधानिक मूल्यों को लाकर एक मूल्य आधारित समाज संरचना करना ही हम सबकी प्राथमिकता हो, ऐसा हमें लगता है ! संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज संरचना का ख़्वाब हकीकत में लाने के लिए यह फ़ेलोशिप शुरू कि गयी है, अतएव ऐसी ही एक लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया भी रही है !

चयन समिति के मतों के आधार पर चयन प्रक्रिया में आप सबने काफी उत्साह से भाग लिया ! इस साल की चयन प्रक्रिया कि यह मुख्य ख़ासियत भी रही है ! चयन समिति ने भी एक निष्पक्ष और पारदर्शी विमर्श के साथ, तय किये हुए निष्कर्षों के आधार पर ही फेलो को चुना है ! इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन !

हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि समता फ़ेलोशिप के लिये आपका चुनाव किया गया है ! अब, हम सब मिलकर संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज निर्मिति का ख़्वाब हकीकत में लाने के लिए, एक जिम्मेदाराना भूमिका में कार्यरत रहेंगे ! यह चुनाव अगले तीन महीने के लिए है, इस अवधि में हम आपके काम को ज्यादा ठीक से समझेंगे और आगे के लिए साथ में रहेंगे या नहीं ये तय करेंगे ! आपके काम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी लगन देखकर आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे ये आशा और विश्वास है !

कार्यक्रम में फेलो का चयन होना तो इस प्रक्रिया का एक छोटा हिस्सा है ! इस प्रक्रिया के बहुत सारे निरंतर पहलू भी हैं, जो समतामूलक समाज निर्मिति के लिए सतत रूप में होने वाले हैं !

1 जनवरी 2022 से ये फेलोशिप शुरू हो रही है !

अतः प्रशासकीय दृष्टि से चयनित फेलो जल्दी ही अपना स्वीकृति पत्र भी भरकर भेज दें, तो सुविधा होगी !

इस प्रक्रिया में हम सब साथ रहेंगे इस विश्वास के साथ -  
आपको आगामी प्रक्रिया के लिए बहुत- बहुत शुभकामनाएं !  
धन्यवाद !

महेंद्र रोकडे  
कार्यक्रम संचालक  
समता फ़ेलोशिप